



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शुक्रवार, 14 जून, 2024

ज्येष्ठ 24, 1946 शक सम्वत्

राज्य निर्वाचन आयोग, उ0 प्र0

पी0सी0एफ0 भवन, 32-स्टेशन रोड, लखनऊ

संख्या 129/रा0नि0आ0-4/न0नि0/6-24-2024

लखनऊ, 14 जून, 2024

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास विभाग के पत्र संख्या 1051/9-1-2024-1783689, दिनांक 16 मई, 2024 द्वारा दिए गये परामर्श के क्रम में भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 यक के साथ पठित उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 13 छ के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राज प्रताप सिंह, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तर प्रदेश संलग्न सूची में उल्लिखित नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के रिक्त सदस्य के स्थानों/पदों (यदि मा0 न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों) पर उप निर्वाचन निम्नलिखित विनिर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार कराये जाने का निर्देश देता हूँ।

समय-सारिणी

| नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति का अन्तिम दिनांक व समय | नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का दिनांक व समय | अभ्यर्थन वापसी का दिनांक व समय | प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय | मतदान का दिनांक व समय | मतगणना का दिनांक व समय |
|--|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 जून, 2024 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक) | 24 जून, 2024 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) | 26 जून, 2024 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक) | 27 जून, 2024 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) | 08 जुलाई, 2024 (प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक) | 10 जुलाई, 2024 (प्रातः 8.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) |

2-उपर्युक्त संदर्भित उप निर्वाचन के लिए सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) दिनांक 15 जून, 2024 को सार्वजनिक नोटिस जारी करेंगे और उसकी एक प्रतिलिपि सरकारी गजट में प्रकाशित करने के लिए तथा एक प्रतिलिपि आयोग को उसी दिन भेजेंगे। तत्क्रम में रिटर्निंग अधिकारी सम्बन्धित नगरीय निकाय के वार्ड के उप निर्वाचन की सार्वजनिक नोटिस दिनांक 18 जून, 2024 को जारी करेंगे तथा उसकी प्रतिलिपि जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) को भेजेंगे। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सूचना निर्गत करने के दिनांक 18 जून, 2024 से नामांकन पत्रों का विक्रय किया जायेगा।

3—जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) तथा उनके द्वारा पदाभिहित किये गये सम्बन्धित स्थान/पद के रिटर्निंग अधिकारी तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारी उक्त कार्यक्रम को प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार कराएंगे। जन सामान्य की जानकारी हेतु अपने कार्यालय तथा सम्बन्धित नगरीय निकायों के मुख्यालय के सूचना पट्ट पर भी सार्वजनिक सूचना की एक प्रति चिपकवा कर प्रदर्शित भी कराएंगे।

4—नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा, अभ्यर्थन वापस लेने, प्रतीक आवंटन एवं मतगणना की कार्यवाही सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारियों/सहायक रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा जिला मुख्यालय के नगरीय निकायों की जिला मुख्यालय पर तथा शेष नगरीय निकायों की सम्बन्धित तहसील मुख्यालय पर अथवा जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) द्वारा एतदर्थ निर्धारित स्थान पर की जायेगी।

5—यह उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली, 2010 के प्रावधानों के अनुसार सम्पन्न कराया जाएगा।

6—नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु आयोग द्वारा निर्धारित उपर्युक्त समय-सारिणी के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर सभी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे एवं निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक—सूची।

आज्ञा से,
राज प्रताप सिंह,
राज्य निर्वाचन आयुक्त
उत्तर प्रदेश।

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना

संख्या 129/रा0नि0आ0-4/न0नि0/06-24-2024, दिनांक 14-6-2024 का संलग्नक

| क्र0सं0 | जनपद का नाम | निकाय का नाम | पद | वार्ड सं0 |
|---------|--------------|-------------------------------|-------|-----------|
| 01 | देवरिया | नगर पंचायत, बरियारपुर | सदस्य | 11 |
| 02 | भदोही | नगर पंचायत, नई बाजार | सदस्य | 10 |
| 03 | उन्नाव | नगर पंचायत, मोहान | सदस्य | 02 |
| 04 | उन्नाव | नगर पंचायत, अचलगंज | सदस्य | 06 |
| 05 | उन्नाव | नगर पंचायत, मोहान | सदस्य | 04 |
| 06 | लखीमपुर खीरी | नगर पंचायत, खीरी | सदस्य | 14 |
| 07 | बाँदा | नगर पालिका परिषद, बाँदा | सदस्य | 11 |
| 08 | शाहजहाँपुर | नगर पालिका परिषद, तिलहर | सदस्य | 13 |
| 09 | बुलन्दशहर | नगर पालिका परिषद, अनूपशहर | सदस्य | 21 |
| 10 | बागपत | नगर पंचायत, टीकरी | सदस्य | 09 |
| 11 | अलीगढ़ | नगर पालिका परिषद, खैर | सदस्य | 01 |
| 12 | मेरठ | नगर पंचायत, हर्रा | सदस्य | 01 |
| 13 | अमरोहा | नगर पालिका परिषद, हसनपुर | सदस्य | 17 |
| 14 | बाराबंकी | नगर पंचायत, टिकैत नगर | सदस्य | 09 |
| 15 | हरदोई | नगर पंचायत, कुरसठ | सदस्य | 03 |
| 16 | सुलतानपुर | नगर पंचायत, कादीपुर | सदस्य | 04 |
| 17 | कन्नौज | नगर पंचायत, समधन | सदस्य | 01 |
| 18 | रामपुर | नगर पालिका परिषद, बिलासपुर | सदस्य | 22 |
| 19 | रामपुर | नगर पंचायत, केमरी | सदस्य | 09 |
| 20 | मुजफ्फरनगर | नगर पंचायत, चरथावल | सदस्य | 06 |
| 21 | गाजीपुर | नगर पालिका परिषद, मोहम्मदाबाद | सदस्य | 01 |
| 22 | गाजीपुर | नगर पालिका परिषद, गाजीपुर | सदस्य | 11 |
| 23 | गाजीपुर | नगर पालिका परिषद, जमानियाँ | सदस्य | 20 |
| 24 | झाँसी | नगर पालिका परिषद, समधर | सदस्य | 10 |
| 25 | रायबरेली | नगर पंचायत, शिवगढ़ | सदस्य | 02 |
| 26 | फतेहपुर | नगर पालिका परिषद, फतेहपुर | सदस्य | 32 |
| 27 | फतेहपुर | नगर पंचायत, कारीकान धाता | सदस्य | 02 |
| 28 | प्रतापगढ़ | नगर पंचायत, प्रतापगढ़ सिटी | सदस्य | 06 |
| 29 | गोरखपुर | नगर पंचायत, सहजनवाँ | सदस्य | 01 |

आज्ञा से,
सुनील कुमार श्रीवास्तव,
सचिव।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 61 राजपत्र-2024-(207)-588+10=598 प्रतियाँ-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।